



# नगर पालिक निगम भिलाई



त्रैमासिक संस्करण 2016  
(अक्टूबर से दिसम्बर)



# नगर पालिक निगम भिलाई





श्री देवेन्द्र यादव  
महापौर

## संदेश

शहर में निवासरत सभी नागरिकों को शुभकामना, मैं अपनी पूरी क्षमता व लगन के साथ प्रयासरत हूं कि अंतिम व्यक्ति तक मूलभूत सुविधा पहुंचे। हम अपने इस लौह नगर को स्वच्छता, पानी, बिजली, सड़क, व्यवस्थित बाजार, पार्क, उद्यान, खेल-कूद, शिक्षा, आपसी प्रेम भाईचारा, सांस्कृतिक महोत्सव, आदि सभी क्षेत्रों में अग्रणी बनायेंगे। हम सब लोग मिलकर ही अपने शहर को स्वच्छ भिलाई सुन्दर भिलाई व स्वस्थ भिलाई बना सकते हैं।

श्री देवेन्द्र यादव  
महापौर  
नगर पालिक निगम  
भिलाई



नगर पालिक निगम भिलाई





श्री नरेन्द्र दुग्गा  
आयुक्त (आई.ए.एस.)  
नगर पालिक निगम  
भिलाई

## संदेश

हमारा प्रयास है कि नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के सभी नागरिकों को मुलभुत सुविधाओं के साथ-साथ, शासन के जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ निरन्तर मिलता रहे। अपने सीमित संसाधनों एवं क्षमता के अनुरूप निगम के अधिकारी कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। अमृत मिशन योजना के अंतर्गत शहर को प्रदूशन मुक्त करने एवं शहर के नागरिकों को शुद्ध पेयजल प्रदान करने की कार्य योजना को समय पर पुरा करने के साथ निगम भिलाई ई-गवर्नेन्स रिफॉर्म क्रियान्वयन हेतु कृत संकल्पित है। अपने नगर को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता है।

आयुक्त (आई.ए.एस.)  
नगर पालिक निगम  
भिलाई



नगर पालिक निगम भिलाई



**स्वच्छ भारत अभियान के द्वितीय वर्ष गाठ पर स्वच्छता के प्रति जागरूक किया**

भिलाईनगर/ प्रदेश के राजस्व मंत्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय ने निगम के वार्ड 31 दुर्गा मंदिर वार्ड में 2 अक्टूबर को वार्ड के नागरिकों, महिलाओं, युवाओं के साथ स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत वार्ड की सफाई में नागरिकों को स्वच्छता प्रति जागरूक किया। मंत्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने कहा कि इस वर्ष के अभियान में नागरिकों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आई है। आज नागरिक सड़क में कचरे फैकने में संकोच कर रहे हैं। देखना जरूर है कि कोई टोके मत लेकिन अभी पूरी तरह तैयार नहीं हो पाया है। हमें अभी और जागरूक करना है। उसके बाद यदि वो नहीं तैयार हुए तो दण्ड भी करेंगे। मंत्री पाण्डे जी ने वार्ड के गली, मुहल्ले पहुँचकर स्वच्छता का शंखनाद किया और कहा कि आज का दिवस राष्ट्रपिता माहत्मा गंधी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम स्वयं स्वच्छ रहे, दुसरे को भी रहने दें। ताकि सभी स्वस्थ रहें। जन-जागरण के माध्यम से हम सन् 2019 तक इस मंजिल तक अवश्य पहुँच सकेंगे। मंत्री जी के साथ आयुक्त नरेन्द्र दुग्गा, सभापति पी. श्याम सुन्दर राव, पार्षद ललिता जयशंकर चौधरी, मनोज यादव, शिव प्रसाद शिबू, कुलेश्वर प्रसाद, श्रीनिवास, पार्षद, रिकू, जोगेन्द्र शर्मा, अली, रूपेश वर्मा, एल्डरमेन पूर्व, अनिता सिंह, बुधन्न सिंह, मनीष अग्रवाल, मिठू अग्रवाल, रविन्द्र सिंह, रविन्दर भगत, सुधांशु सिंह, राजेन्द्र नायक, अनिल सोनी, निगम के जोन आयुक्त, सहायक अभियंता, स्वच्छता निरीक्षक, स्वच्छता पर्यवेक्षक आदि उपस्थित रहे।



**नगर पालिक निगम भिलाई**



## गाँधी जयंती पर स्वच्छता दिवस का आयोजन

भिलाईनगर/ आज 2 अक्टूबर को पूरा देश स्वच्छता दिवस मना रहा है। अपने आसपास की सफाई कर देश व प्रदेश को यह संदेश देना है, कि अब स्वच्छता भारत वर्ष का एक महत्वपूर्ण पर्व हैं। इस दिन हम राष्ट्रपिता माहत्मा गांधी के सपने को साकार करने के लिए देश के अंतिम पक्ति तक खडे लोगों का सम्मान आर्थिक, सामाजिक, व्यवहारिक रूप में करें। उक्त बातें आज निगम के महापौर देवेन्द्र यादव ने निगम के स्वच्छता मित्र के सम्मान में कही, और इन स्वच्छता मित्रों को उनके उपयोगी सामाग्री के साथ एप्रान वर्दी, गमबुट, दास्ताने, नए औजारों को प्रदान किया। कहा कि जब आप स्वच्छ रहेगे तब हमारा शहर स्वच्छ रहेगा। महापौर देवेन्द्र यादव स्वच्छता मित्रों का सम्मान करते हुए जलेबी चैक में राष्ट्रपिता माहत्मा गांधी के प्रतिमा में माल्याअर्पण किया। कार्यक्रम में निगम के स्वच्छता मित्र के साथ स्वास्थ्य प्रभारी लक्ष्मीपति राजू, पार्षद जी. राजू, आशिफ खान, प्रमोद पाण्डे, जगन्नाथ कुशवाह, महेश पाण्डेय, शम्भू सिंह, रामायण सिंह, अशोक कन्नौजे आदि उपस्थित थे। विधायक वैशाली नगर विद्यारतन भसीन ने लाल बहादुर शास्त्री शासकीय चिकित्सालय मे लाल बहादुर शास्त्री के प्रतिमा में माल्याअर्पण किया।



नगर पालिक निगम भिलाई



## दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजिविका मिशन के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण

हजारो हितग्राही लाभान्वित होंगे दो दिवसीय कौशल प्रशिक्षण शिविर में भिलाई नगर निगम द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजिविका मिशन के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण हेतु जोन अनुसार दिनांक 17 एवं 18 अक्टूबर को प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक दो दिवसीय शिविर जोन मुख्यालय में लगाया जाएगा। इस शिविर में विशेष रूप से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विधवा, परित्यक्ता, बीपीएल महिलाओं, सफाई कामगार, रैप पिकर्स, रिक्शा चालकों आदि के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए शासन के जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा। समूह के रूची के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाए। शासन के योजनाओं की जानकारी दी जावे। इन्ही सबसे राहत देने के लिए हितग्राहियों का समूह बनाकर संगठित किया जा रहा है, स्वयं का बचत, बैंक से सहयोग, शासन की योजनाओं का लाभ आदि प्राप्त कर अपने गरीबी से मुक्ति पा सकते हैं। शासन का यह भी पहल है कि समूहों के माध्यम से सफाई अभियान, यूजर चार्जस, वसूली, सुलभ शौचालय, व्यक्तिगत शौचालय निर्माण आदि निगम के कार्यों को गठित समूहों के द्वारा करवाया जावे, उससे प्राप्त लाभ समूह के सदस्य आपस में बाटकर लाभान्वित हो सके। स्व-सहायता गठन के सी.ओ., सीआरपी, योजना से संबंधित निगम के अधिकारी, कर्मचारियों को जानकारी नोडल अधिकारी अशोक द्विवेदी ने दि है।



नगर पालिक निगम भिलाई



## छठ के लिये तालाब सजकर तैयार

भिलाई नगर/ महापौर देवेन्द्र यादव, सभापति पी. श्यामसुंदर राव , आयुक्त नरेन्द्र दुग्गा, ने छठ पर्व की शुभकामनायें देते हुये कहा कि पर्व की सफलता के लिये तालाबों की स्वच्छता के साथत्रत में शुद्धता आवश्यक है। पूजा पश्चात् निकलने वाले विसर्जन सामाग्री को तालाब में विसर्जित न करके तालाब को स्वच्छ रखें। छठी मैया सभी की मनोकामना पूर्ण करें। आयुक्त नरेन्द्र दुग्गा के दिये निर्देश एवं स्थल अवलोकन के बाद निगम क्षेत्र के 35 तालाब पूर्वाचल के सबसे बड़ा पर्व छठ के लिये सजकर तैयार हो गया है। आयुक्त ने समस्त जोन आयुक्तों से कहा है कि तालाब पार में डस्टबीन रखें ताकि श्रद्धालु तालाब पार में फैलने वाले कचरे को डस्टबीन में डाल सके ।

पर्व सुबह व शाम होने से स्वच्छता के साथ प्रकाश व्यवस्था को लेकर भी आयुक्त ने तालाबों के आस-पास सड़को की प्रकाश व्यवस्था को सुचारु बनाने को कहा। पशु पालकों से भी अनुरोध किया है कि वे तालाबों में पशुओं को जाने से रोके ताकि कार्यों में असुविधा न हो। निगम ने सभी तालाबों में जहा श्रद्धालु आने हैं निगम के कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की है।



नगर पालिक निगम भिलाई



## फेस-2 के जल प्रदाय योजना का कार्य प्रारंभ

भिलाई नगर/ निगम आयुक्त नरेंद्र कुमार दुग्गा ने जानकारी देते हुये बताया कि निगम भिलाई की फेस-2 जल प्रदाय योजना के लिये भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा लागु अमृत मिशन योजनान्तर्गत दिनांक 30.05.2016 द्वारा तकनीकी स्वीकृति तथा राशि 24273.49 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी ।

स्वीकृति उपरान्त आयुक्त द्वारा उपरोक्त कार्यों की निविदा आमंत्रित की गई जिसमें राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की पांचवी बैठक 4 नवम्बर को हुई जिसमें समिति द्वारा डब्ल्यू.टी.पी. से संबंधित कार्य हेतु 1764.00 लाख रुपये निविदा कर गोंडवाना इंजीनियर्स लि. नागपूर क्लीयर वाटर राइजनिंग से संबंधित कार्य पाईप लाईन 3767.92 लाख निविदा कर इंडियन ह्युम पाईप कम्पनी लि. मुम्बई एवं डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क से संबंधित कार्य 10395.08 लाख निविदाकर इंडियन ह्युम पाईप कम्पनी लिमिटेड मुम्बई को आमंत्रित निविदा की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। आयुक्त नरेंद्र दुग्गा ने कहा है कि स्वीकृति के उपरान्त अब शीघ्र ही फेस-2 के जल प्रदाय योजना का कार्य प्रारंभ किया जायेगा। इस योजना को समय सीमा में पूर्ण कर लेने की तैयारी निगम की है। फेस-2 पेयजल योजना से निगम में जलापूर्ति की समस्या का समाधान हो सकेगा सभी क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति हो सकेगी।



## आकर्षण का केंद्र होगा नवनिर्मित नेहरू नगर गार्डन

भिलाई नगर/ भिलाई,दुर्ग में पहली बार अपनी विविधताओं के कारण आकर्षण का केंद्र बना हुआ है नेहरू नगर में जी.ई. रोड के समीप निर्माण किया जा रहा नवनिर्मित गार्डन। 4 भाग में विभाजित यह पहला गार्डन होगा जो सभी प्रकार के खुबियों को समेटे हुए है। निगम आयुक्त नरेंद्र दुग्गा के मार्गदर्शन में एक सार्थक पहल है। अपने-अपने राशि के अनुसार व्यक्ति बैठकर आनंदित हो सकता है। आकर्षण का केन्द्र है-योगागार्डन, इसमें योग के विभिन्न मुद्राओं का वृत्त चित्र लगाया गया है। चिल्ड्रन पार्क छोटे बच्चों के खेलने के अनुकूल विभिन्न प्रकार के खेल-कूद उपकरण लगाया गया है बच्चें अभी से आकर्षित हो रहे हैं। है पेशाब घर, शौचालय का निर्माण भी प्रस्तावित है गार्डन के बाहर फुड स्टाल भी लगेंगे। गार्डन में लाईट भरपुर होगा। गार्डन को बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि जो पुराने वृक्ष थे उसे नहीं काटा गया उसके टहनियों को काट छाट कर आकर्षक बनाकर चारों तरफ बेठने के लिये चबुतरा बना दिया गया है। इसकी प्लानिंग एवं डिजाइनिंग दीपक त्यागी रायपुर द्वारा किया गया है जो राजधानी में नया मंत्रालय, नया एयरपोर्ट, सेंटरल पार्क (75 एकड़) आदि बनाने में सहयोगी रहें। एजेंसी एस.एस. कंस्ट्रक्शन रायपुर द्वारा 1 करोड़ 80 लाख के लागत से कार्य किया जा रहा है। निगम भिलाई के द्वारा जोन-1 आयुक्त बी.के. देवांगन, अभियंता सुनील दुबे, कुलदीप गुप्ता, सुपरवाइजर हरि प्रेम वर्मा आदि के देखरेख में नेहरू नगर के आकर्षक पार्क का निर्माण किया गया है।



नगर पालिक निगम भिलाई



## सेग्रीगेशन प्लांट के कचरे से बनेगा जैविक खाद

भिलाई नगर/ शहर से निकलने वाले कचरे का सही निष्पादन के लिए निगम भिलाई द्वारा समस्त जोनों में सेग्रीगेशन प्लांट का निर्माण प्रारम्भ किया है जो माह के अंत तक पूर्ण होकर कचरों को सेग्रीगेट करने का कार्य प्रारम्भ हो जायेगा। आयुक्त नरेंद्र दुग्गा के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता रैंकिंग में शामिल विषय बिंदु को ध्यान में रखकर निगम के जोन आयुक्तों को निर्देशित किया था कि अपने क्षेत्रों में कचरों के उचित निष्पादन के लिये जगह चिन्हित कर सेग्रीगेशन प्लांट का निर्माण का कार्य प्रारम्भ करें। 15.46 लाख रुपये की लागत से वार्ड-63 रुंआबांधा तालाब के पास सेग्रीगेशन प्लांट का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है जो माह के अंत तक पूर्ण होगा। उक्त प्लांट के माध्यम से जोन-6 रिसाली के विभिन्न वार्डों से निकलने वाले कचरे को प्लांट में लाकर सुखा एवं गीले कचरे की छटाई किया जावेगा। सेग्रीगेशन प्लांट का निर्माण सभी जोन में किया जाना है नेहरु नगर पूर्व में नाला के पास प्लांट निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है पावर हाउस आई0टी0आई0 के पीछे, तेलहा नाला के पास, तथा वैशाली नगर जोन के ट्रेचिंग ग्राउण्ड में प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। सभी जोनों में प्लांट में कार्य प्रारम्भ होने से शहर से निकलने वाले सुखे एवं गीले कचरे की छटाई कर गीले कचरे से जैविक खाद का निर्माण किया जायेगा। जिसका उपयोग निगम अपने उद्यानों में करेगा और सुखे कचरे को प्रासेसिंग प्लांट में भेजा जायेगा।



नगर पालिक निगम भिलाई



## युद्ध स्तर पर शहर को कैश लेस ट्रान्जेक्शन बनाने में निगम सक्रिय

भिलाई नगर/ भिलाई क्षेत्र में कैश लेस ट्रान्जेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए निगम भिलाई द्वारा लगातार व्यापारियों एवं कालेज के छात्र-छात्राओं के बीच कार्यशाला का आयोजन कर प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा मोबाईल एप, स्वाइप कार्ड मशीन एवं आधार कार्ड के माध्यम से लेनदेन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के मैनेजर सीबा ने दिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में नगर के च्वाइस संचालक के साथ-साथ शासन द्वारा संचालित योजनाओं के आवेदन एवं प्रमाण पत्र व लायसेंस आनलाईन जारी करने के कार्य में लगे व्यक्ति भी उपस्थित थे उनसे कहा गया कि आप नागरिकों से अपने कार्य के उपरान्त लेने वाले शुल्क को नगद न लेकर इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन करें। और कैश लेस व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित करें तथा नागरिकों को कैश लेस व्यवस्था की जानकारी देकर परिचालन हेतु प्रशिक्षित करें। आयुक्त नरेन्द्र दुग्गा ने कहा कि मैंने तो कैश लेस ट्रान्जेक्शन शुरू कर दिया है प्रक्रिया बहुत ही सरल और आसान है बस एक बार समझने व मोबाइल में एक्टिवेट करने की जरूरत है। निगम क्षेत्र के कम्प्युटर सुविधा केन्द्र (कामन सर्विस सेंटर) लेनदेन एजेंसियों को बुलाकर निगम के सभागार में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान च्वाइस सेंटर चलाने वाले एजेंसी के सदस्य मोबाइल शाप चलाने वाले सभी दुकानों के प्रतिनिधि, बैंक के अधिकारी निगम के सभी जोन के जोन आयुक्त, विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।



नगर पालिक निगम भिलाई



भिलाई नगर/ शंकराचार्य कालेज में आयोजित स्वच्छता रैंकिंग कार्यशाला को संबोधित करते हुए आयुक्त नरेन्द्र दुग्गा ने कहा कि अगर युवा वर्ग स्वच्छता के प्रति गंभीर हो तो समाज को जारो वेस्ट किया जा सकता है। स्वच्छता रैंकिंग 2017 में युवाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है सर्वेक्षण दल द्वारा आन लाइन रैंकिंग किया जाना है जिसमें नागरिकों से शहर की सफाई व्यवस्था से संबंधित फीडबैक लिया जावेगा। जिसके लिए शहर के आम नागरिक एवं युवा वर्ग तैयार रहें। कार्यक्रम के अंत में श्री देशमुख द्वारा आयुक्त को स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। श्री दुग्गा ने शंकराचार्य कालेज के सभागार में हजारों की संख्या में उपस्थित छात्र-छात्राओं से अपील करते हुए कहा कि हमारा शहर कैश लेस व्यवस्था की ओर आगे बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन को बढ़ावा दे रहा है जिसमें युवाओं की अग्रिणी भूमिका होगी। युवा वर्ग चूंकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सबसे ज्यादा जुड़ा रहता है इसलिए वे लोगों को कैश लेस लेनदेन की व्यवस्था के संबंध में जानकारी के साथ प्रशिक्षित करें। निगम आयुक्त दुग्गा एक परिश्रमशील व्यक्ति हैं। कार्यक्रम में निगम डाटा सेंटर के के0एल0 कुर्वे ने कैश लेस व्यवस्था की जानकारी देते हुए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की विधि का प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन के इंजीनियर श्वेता महेश्वर, शरद दुबे, जावेद अली, खुलेश साहू, रामायण सिंह, एन0यु0एल0एम0 के मैनेजर बैनर्जी, कालेज के स्टाफ एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।



कैश लेस व स्वच्छता रैंकिंग में नम्बर-1 भिलाई को बनाने का संकल्प लिया भिलाईनगर/ आयुक्त नरेन्द्र दुग्गा के निर्देशानुसार नगर निगम भिलाई का उड़नदस्ता दल सेक्टर-6 ई0 मार्केट में पहुंचकर व्यापारियों को कैश लेस ट्रान्जेक्शन करने हेतु प्रेरित किया वही के व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल के सदस्य एवं व्यापारिक जन एकत्रित कर उनके एन्ड्रायड मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके कैश लेस लेनदेन की प्रक्रिया को बताया गया। व्यापारियों का कहना था कि शुरु में तो प्रक्रिया कठिन लग रही थी समझने के बाद में आसान हो गया है। हम लोग इसी के माध्यम से अपने मार्केट में व्यापार करने को लेकर ग्राहकों समझाने उसे बढ़ावा देंगे ताकि उनकी आदत में आ जाये। व्यापारिक प्रतिनिधियों को कैश लेस ट्रान्जेक्शन मोबाइल के माध्यम से देने के लिए नगर निगम भिलाई के अजय शुक्ला ने प्रक्रियाओं की पूर्ण जानकारी देते हुए उन्हें ऐप चलाकर दिखाया।



### Editorial Board

श्री नरेन्द्र दुग्गा  
आयुक्त (आई.ए.एस.)  
नगर पालिक निगम  
भिलाई

### Contact & Address

श्री अशोक पहाड़िया  
जनसंपर्क अधिकारी  
नगर पालिक निगम  
भिलाई



नगर पालिक निगम भिलाई

